

# Exo

## Chapter 26

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

שָׁנִי	וְתִלְעֵת	וְאַרְבָּנִים	וְתִכְלֵת	מִשְׁזָר	שֵׁשׁ	יְרִיעֹת	עֶשְׂרֵה	תַּעֲשֶׂה	הַמִּשְׁכָּן	וְאֶת-	1
लाल	और-कीड़ा	और-बैंगनी	और-नीला	बटे-हुए	बारीक-कपड़ा	परदे	दस	बनाओ	निवास	और-को-	
<a href="#">H8144</a>		<a href="#">H0713</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H7806</a>		<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H6235</a>		<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H0853</a>	

אֶתֶם:	תַּעֲשֶׂה	חָשָׁב	מַעֲשֶׂה	כְּרָבִים
उन्हें	बनाओ	कुशल-कारीगर-का	काम	करूबों
<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H2803</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3742</a>

यहोवा ने मूसा से कहा, “पवित्र तम्बू दस कनातों से बनाओ। इन कनातों को अच्छे रेशम तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़ों से बनाओ। किसी कुशल कारीगर को चाहिए कि वह करूबों को पंख सहित कनातों पर काढ़े।

הָאֶחָת	הַיְרִיעָה	בְּאַמָּה	אַרְבַּע	וְרֹחַב	בְּאַמָּה	וְעֶשְׂרִים	שְׁמֹנֶה	הָאֶחָת	הַיְרִיעָה	אֶרְבָּא	2
एक	परदा	हाथ-में	चार	और-चौड़ाई	हाथ-में	और-बीस	अठ्ठाईस	एक	परदे-की	लंबाई	
<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3407</a>		<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H7341</a>		<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H8083</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H0753</a>	

הַיְרִיעֹת:	לְכֹל-	אֶחָת	מִדָּה
परदों	सब-के-लिए-	एक	नाप
<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0259</a>	

हर एक कनात को एक बराबर बनाओ। हर एक कनात चौदह गज लम्बी और दो गज चौड़ी होनी चाहिए।

אֶל-	אֶשָׁה	חִבְרֹת	יְרִיעֹת	וְחֲמִשׁ	אֶחָתָהּ	אֶל-	אֶשָׁה	חִבְרֹת	תְּהִיֵּינָה	הַיְרִיעֹת	חֲמִשׁ	3
से-	एक	जुड़े-हुए	परदे	और-पाँच	दूसरे	से-	एक	जुड़े-हुए	हीं	परदे	पाँच	
<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H2266</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H2266</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H2568</a>	

אֶחָתָהּ:
दूसरे
<a href="#">H0269</a>

सभी कनातों को दो भागों में सीओ। एक भाग में पाँच कनातों को एक साथ सीओ और दूसरे भाग में पाँच को एक साथ।

תַּעֲשֶׂה	וְכֵן	בְּחִבְרֹת	מִקְצָה	הָאֶחָת	הַיְרִיעָה	שָׁפַת	עַל	תְּכִלֵּת	לְלֵאָת	וְעֵשִׂית	4
बनाओ	और-ऐसे	जोड़-में	सिरे-से	एक	परदे-के	किनारे	पर	नीले-के	फंदे	और-बनाओ	
		<a href="#">H2279</a>	<a href="#">H7098</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H8193</a>		<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H3924</a>		

הַשְּׂנִית:	בְּמַחְבְּרַת	תְּקִי צוֹנָה	הַיְרִיעָה	בְּשָׁפַת
दूसरे	जोड़-में	बाहरी	परदे-के	किनारे-पर
<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H4225</a>	<a href="#">H7020</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H8193</a>

आखिरी कनात के सिरे के नीचे छल्ले बनाओ। इन छल्लों को बनाने के लिए नीला कपड़ा उपयोग में लाओ। कनातों के दोनों भागों में एक और नीचे छल्ले होंगे।

אֶשֶׁר	הַיְרִיעָה	בְּקִצָּה	תַּעֲשֶׂה	לְלֵאָת	וְחֲמִשִּׁים	הָאֶחָת	בְּיְרִיעָה	תַּעֲשֶׂה	לְלֵאָת	חֲמִשִּׁים	5
जो	परदे-के	सिरे-पर	बनाओ	फंदे	और-पचास	एक	परदे-में	बनाओ	फंदे	पचास	
	<a href="#">H3407</a>			<a href="#">H3924</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3407</a>		<a href="#">H3924</a>	<a href="#">H2572</a>	

אֶחָתָהּ:	אֶל-	אֶשָׁה	הַלְּלֵאָת	מִקְבִּילֹת	הַשְּׂנִית	בְּמַחְבְּרַת
दूसरे	से-	एक	फंदे	आमने-सामने	दूसरे	जोड़-में
<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3924</a>	<a href="#">H6901</a>	<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H4225</a>

पहले भाग की आखिरी कनात में पचास छल्ले होंगे और दूसरे भाग की आखिरी कनात में पचास।

בְּקֶרְסִים	אֶחָתָהּ	אֶל-	אִשָּׁה	הַיְרִיעֹת	אֶת-	וְחִבְרָתָהּ	זָהָב	קֶרְסֵי	חֲמִשִּׁים	וְעֲשִׂיתָ	6
कड़ों-से	दूसरे	से-	एक	परदों	को-	और-जोड़ी	सोने-के	कड़े	पचास	और-बनाओ	
<a href="#">H7165</a>	<a href="#">H0269</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2266</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H7165</a>	<a href="#">H2572</a>		

וְהָיָה הַמִּשְׁכָּן אֶחָד : פ  
 और-हो निवास एक एक : प  
[H0259](#) [H4908](#) [H1961](#)

तब पचास सोने के कड़े छल्लों को एक साथ मिलाने के लिए बनाओ। यह कनातों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि पवित्र तम्बू एक ही हो जाएगा।”

תַּעֲשֶׂה	יְרִיעֹת	עֲשָׂרָה	עֲשָׂתַי-	הַמִּשְׁכָּן	עַל-	לְאַהֲלֵ	עֲזִים	יְרִיעֹת	וְעֲשִׂיתָ	7
बनाओ	परदे	दस	ग्यारह-	निवास	पर-	तंबू-के-लिए	बकरी-बालों-के	परदे	और-बनाओ	
	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H6249</a>	<a href="#">H4908</a>		<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5795</a>	<a href="#">H3407</a>		

אֵתָם :  
 उन्हें  
[H0853](#)

“तब तुम दूसरा तम्बू बनाओगे जो पवित्र तम्बू को ढकेगा। इस तम्बू को बनाने के लिए बकरियों के बाल से बनी ग्यारह कनातों का उपयोग करो।

מִדָּה	הָאֶחָת	הַיְרִיעָה	בְּאַמָּה	אַרְבַּע	וְחִבְּ	בְּאַמָּה	שְׁלֹשִׁים	הָאֶחָת	הַיְרִיעָה	וְאָרְזָהּ	8
नाप	एक	परदा	हाथ-में	चार	और-चौड़ाई	हाथ-में	तीस	एक	परदे-की	लंबाई	
	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3407</a>		<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H7341</a>		<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H0753</a>	

אֶחָת :  
 एक  
 אֶחָת לְעֲשָׂתַי עֲשָׂרָה יְרִיעֹת :  
 एक ग्यारह-के-लिए दस परदों  
[H3407](#) [H6240](#) [H6249](#) [H0259](#)

ये सभी कनातें एक बराबर होनी चाहिए। वे पन्द्रह गज लम्बी और दो गज चौड़ी होनी चाहिए।

הַיְרִיעָה	אֶת-	וְכַפְלָתָהּ	לְבָד	הַיְרִיעֹת	שֵׁשׁ	וְאֶת-	לְבָד	הַיְרִיעֹת	חֲמִשָּׁה	אֶת-	וְחִבְרָתָהּ	9
परदा	को-	और-मोड़ी	अलग	परदों	छह	और-को-	अलग	परदों	पाँच	को-	और-जोड़ी	
<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3717</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2266</a>	

הַשְּׂשִׁית :  
 छठा  
 אֶל- מוֹל- פְּנֵי הָאֶהָל :  
 की-और- सामने तंबू-के साम्हने  
[H0168](#) [H6440](#) [H4136](#) [H0413](#) [H8345](#)

एक भाग में पाँच कनातों को एक साथ सीओ तब बाकी छः कनातों को दूसरे भाग में एक साथ सीओ। छठी कनात का उपयोग तम्बू के सामने के पर्दे के लिए करो। इसे इस प्रकार लपेटो कि यह द्वार की तरह खुले।

לְלֵאֵת	וְחֲמִשִּׁים	בְּחִבְרָתָהּ	הַקִּיצָנָה	הָאֶחָת	הַיְרִיעָה	שַׁפְּתָהּ	עַל	לְלֵאֵת	חֲמִשִּׁים	וְעֲשִׂיתָ	10
फंदे	और-पचास	जोड़-में	बाहरी	एक	परदे-के	किनारे	पर	फंदे	पचास	और-बनाओ	
<a href="#">H3924</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H2279</a>	<a href="#">H7020</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H3407</a>	<a href="#">H8193</a>		<a href="#">H3924</a>	<a href="#">H2572</a>		

עַל שַׁפְּתָהּ הַיְרִיעָה הַחִבְרָתָהּ הַשְּׂנִית :  
 पर किनारे परदे-के जोड़ने-वाले दूसरे  
[H8145](#) [H2279](#) [H3407](#) [H8193](#)

एक भाग की आखिरी कनात के सिरे पर पचास छल्ले बनाओ, ऐसा ही दूसरे भाग की आखिरी कनात के लिए करो।

הָאֶהָל	אֶת-	וְחִבְרָתָהּ	בְּלֵאֵת	הַקֶּרְסִים	אֶת-	וְהַבָּאָה	חֲמִשִּׁים	נְחֹשֶׁת	קֶרְסֵי	וְעֲשִׂיתָ	11
तंबू	को-	और-जोड़ी	फंदों-में	कड़ों	को-	और-डालो	पचास	काँसे-के	कड़े	और-बनाओ	
<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2266</a>	<a href="#">H3924</a>	<a href="#">H7165</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H2572</a>		<a href="#">H7165</a>		

אֶחָד :  
 एक  
 וְהָיָה :  
 और-हो  
[H0259](#) [H1961](#)

तब पचास काँसे के कड़े बनाओ। इन काँसे के कड़ों का उपयोग छल्लों को एक साथ जोड़ने के लिए करो। ये कनातों को एक साथ तम्बू के रूप में जोड़ेंगे।



קָרָשׁ :	עֲשָׂרִים	צָפוֹן	לְפָאֵת	הַשְּׁנִית	הַמְּשָׁכָן	וּלְצֹלַע	20
तख्ता	बीस	उत्तर	दिशा-के-लिए	दूसरे	निवास-के	और-पक्ष-के-लिए	
<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H6828</a>	<a href="#">H6285</a>	<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H6763</a>	

तम्बू के (उत्तरी भाग) के लिए बीस तख्ते और बनाओ।

תַּחַת	אֲדָנִים	וּשְׁנֵי	הָאֶחָד	הַקָּרָשׁ	תַּחַת	אֲדָנִים	שְׁנֵי	כֶּסֶף	אֲדָנִיהֶם	וְאֲרַבְעִים	21
नीचे	कुर्सियाँ	और-दो	एक	तख्ते-के	नीचे	कुर्सियाँ	दो	चाँदी-की	उनकी-कुर्सियाँ	और-चालीस	
<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H0705</a>	

הָאֶחָד :  
एक  
[H0259](#)  
הַקָּרָשׁ  
तख्ते-के  
[H7175](#)

इन तख्तों के लिए भी चाँदी के चालीस आधार बनाओ, अर्थात् एक तख्ते के लिए दो आधार।

קָרָשִׁים :	שָׁחָה	תַּעֲשֶׂה	יָמָה	הַמְּשָׁכָן	וְלִירְכָתָיו	22
तख्ते	छह	बनाओ	पश्चिम-की-ओर	निवास-के	और-पीछे-के-लिए	
<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H8337</a>		<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H3411</a>	

तुम्हें तम्बू के (पश्चिमी छोर) के लिए छः और तख्ते बनाने चाहिए।

וּשְׁנֵי	קָרָשִׁים	תַּעֲשֶׂה	לְמִקְצֵעַת	הַמְּשָׁכָן	בִּירְכָתָיו :	23
और-दो	तख्ते	बनाओ	कोनों-के-लिए	निवास-के	दोनों-पीछे	
<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H7175</a>		<a href="#">H4742</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H3411</a>	

दो तख्ते पिछले कोनों के लिए बनाओ।

וַיְהִי	תְּאֵמִים	מִלְמַטָּה	וַיַּחֲרוֹ	יָהוּוֹ	תָּמִים	עַל-	רִאשׁוֹ	אֶל-	הַטְּבַעַת	הָאֶחָת	24
और-हों	जोड़ीदार	नीचे-से	और-इकट्ठे	हों	पूरे	पर-	उसके-शीर्ष	से-	कड़े	एक	
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8382</a>	<a href="#">H4295</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8535</a>			<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2885</a>	<a href="#">H0259</a>	

כֵּן :  
ऐसे  
יָהוּוֹ :  
ही  
לְשֵׁנֵיהֶם  
दोनों-के-लिए  
H8147  
לְשֵׁנֵיהֶם  
दोनों-के-लिए  
H8147  
הַמִּקְצֵעַת  
कोनों  
H4740  
יָהוּוֹ :  
हों  
H1961

कोने के दोनों तख्ते एक साथ जोड़ देने चाहिए। तले में दोनों तख्तों की खूंटियाँ चाँदी के एक ही आधार में लगेंगी और ऊपर धातु का एक छल्ला दोनों तख्तों को एक साथ रखेगा।

וַיְהִי	שְׂמֹנֶה	קָרָשִׁים	וְאֲדָנֵיהֶם	כֶּסֶף	שָׁחָה	עֶשֶׂר	אֲדָנִים	שְׁנֵי	אֲדָנִים	תַּחַת	25
और-हों	आठ	तख्ते	और-उनकी-कुर्सियाँ	चाँदी-की	सोलह	दस	कुर्सियाँ	दो	कुर्सियाँ	नीचे	
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8083</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H8478</a>	

הָאֶחָד :  
एक  
H0259  
וּשְׁנֵי  
और-दो  
H8147  
הָאֶחָד  
एक  
H0259  
הַקָּרָשׁ  
तख्ते-के  
H7175  
תַּחַת  
नीचे  
H8478  
אֲדָנִים  
कुर्सियाँ  
H0134  
וּשְׁנֵי  
और-दो  
H8147  
הָאֶחָד  
एक  
H0259  
הַקָּרָשׁ  
तख्ते-के  
H7175

इस प्रकार सब मिलाकर आठ तख्तों तम्बू के सिरे के लिए होंगे और हर तख्ते के नीचे दो आधारों के होने से सोलह चाँदी के आधार पश्चिमी छोर के लिए होंगे।”

וְעֵשִׂיתָ	בְּרִיחֶם	עֲצֵי	שִׁטִּים	חֲמוֹשָׁה	לְקַרְשֵׁי	צֹלַע-	הַמְּשָׁכָן	הָאֶחָד :	26
और-बनाओ	बेंड़े	लकड़ी-के	कीकर-की	पाँच	तख्तों-के-लिए	पक्ष-	निवास-के	एक	
	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H7848</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H6763</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H0259</a>	

“बबूल की लकड़ी का उपयोग करो और तम्बू के तख्तों के लिए कुण्डियाँ बनाओ। तम्बू के पहले भाग के लिए पाँच कुण्डियाँ होंगी।

וְחֲמוֹשָׁה	בְּרִיחֶם	לְקַרְשֵׁי	צֹלַע-	הַמְּשָׁכָן	הַשְּׁנִית	וְחֲמוֹשָׁה	בְּרִיחֶם	לְקַרְשֵׁי	צֹלַע	27
और-पाँच	बेंड़े	तख्तों-के-लिए	पक्ष-	निवास-के	दूसरे	और-पाँच	बेंड़े	तख्तों-के-लिए	पक्ष	
<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H6763</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H8145</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H6763</a>	

יָמָה :  
पश्चिम-की-ओर  
H3220  
בִּירְכָתָיו  
दोनों-पीछे  
H3411  
הַמְּשָׁכָן  
निवास-के  
H4908

और तम्बू के दूसरे भाग के ढाँचे के लिए पाँच कुण्डियाँ होंगी। और तम्बू के (पश्चिमी भाग) के ढाँचे के लिए पाँच कुण्डियाँ होंगी अर्थात् तम्बू के पीछे।

וְהִבְרִיחַ	הַתִּיכֵן	בְּתוֹךְ	הַקְּרָשִׁים	מִבְּרֶחַ	מִן־	הַקְּלָה	אֶל־	הַקְּלָה:	28
और-बेड़ा	बीच-का	बीच-में	तख्तों-के	जाने-वाला	से-	सिरे	से-	सिरे	
<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H8484</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H1272</a>		<a href="#">H0413</a>			

पाँचों कुण्डियों के बीच की कुण्डी तख्तों के मध्य में होनी चाहिए। यह कुण्डी तख्तों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचनी चाहिए।

וְאֵת־	הַקְּרָשִׁים	תַּצְפּוּהָ	זָהָב	וְאֵת־	טַבַּעְתֵּיהֶם	תַּעֲשֶׂהָ	זָהָב	בְּתַיִם	לְבִרְיָהֶם	29
और-को-	तख्तों	मढ़ो	सोने-से	और-को-	उनके-कड़े	बनाओ	सोने-के	खाने	बेड़ों-के-लिए	
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7175</a>	<a href="#">H6823</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2885</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H1280</a>	
	וְצִפִּיתָ	אֶת־	הַבְּרִיחַ	זָהָב:						
	और-मढ़ो	को-	बेड़ों	सोने-से						
	<a href="#">H6823</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H2091</a>						

“तख्तों को सोने से मढ़ो और तख्तों की कुण्डियों को फँसाने के लिए कड़े बनवाओ। ये कड़े भी सोने के ही बनने चाहिए। कुण्डियों को भी सोने से मढ़ो।

וְהִקְמַנְתָּ	אֶת־	הַמִּשְׁכָּן	כַּמִּשְׁפָּטוֹ	אֲשֶׁר	הָרְאִיתָ	בְּהָר:	ס	29
और-खड़ा-करो	को-	निवास	उसके-नियम-के-अनुसार	जो	दिखाया-गया-था-तुम्हें	पहाड़-पर	स	
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2022</a>			

पवित्र तम्बू को तुम उसी ढंग की बनाओ जैसा मैंने तुम्हें पर्वत पर दिखाया था।

וְעֲשִׂיתָ	פְּרֹכֶת	תְּכֵלֶת	וְאַרְגָּמָן	וְתוֹלַעַת	שָׁנִי	וְשֵׁשׁ	מִשְׁעָה	31
और-बनाओ	परदा	नीला	और-बैंगनी	और-कीड़ा	लाल	और-बारीक-कपड़ा	काम	
<a href="#">H6532</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H0713</a>	<a href="#">H8144</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H7806</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H7806</a>	
	חָשָׁב	יַעֲשֶׂה	אֹתָהּ	כְּרָבִים:				
	कुशल-कारीगर-का	बनाया-जाए	उसे	करूबों				
	<a href="#">H2803</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3742</a>					

“सन के अच्छे रेशों का उपयोग करो और तम्बू के भीतरी भाग के लिए एक विशेष पर्दा बनाओ। इस पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े से बनाओ। करूब के प्रतिरूप कपड़े में काढ़ो।

וְנִתְּנָה	אֹתָהּ	עַל־	אַרְבָּעָה	עֲמוּדָי	שָׁשִׁים	מִצָּפִים	זָהָב	וְוִיָּהֶם	זָהָב	עַל־	32
और-लगाओ	उसे	पर-	चार	खम्हों	कीकर-के	मढ़े-हुए	सोने-से	उनके-हुक	सोना	पर-	
<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H5982</a>	<a href="#">H7848</a>	<a href="#">H6823</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H2053</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H2091</a>	
	אַרְבָּעָה	אֲדָנִי	כֶּסֶף:								
	चार	कुर्सियाँ-	चाँदी-की								
	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H3701</a>								

बबूल की लकड़ी के चार खम्भे बनाओ। चारों खम्भों पर सोने की बनी खूंटियाँ लगाओ। खम्भों को सोने से मढ़ दो। खम्भों के नीचे चाँदी के चार आधार रखो। तब सोने की खूंटियों में पर्दा लटकाओ।

וְנִתְּנָה	אֶת־	הַפְּרֹכֶת	תַּחַת	הַקְּרָסִים	וְהִבְאֵת	שָׁמָּה	מִבֵּית	לְפָרֹכֶת	אֵת	אֲרוֹן	33
और-लगाओ	को-	परदा	नीचे	कड़ों	और-लाओ	वहाँ	अंदर-से	परदे-के	को	संदूक	
<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6532</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H7165</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H6532</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0727</a>	
	הַעֲדוֹת	וְהִבְרִיחָהּ	הַפְּרֹכֶת	לְכֹם	בֵּין	הַקְּרָשִׁים	וּבֵין	קְרָשׁ	הַקְּרָשִׁים:		
	साक्षी-के	और-अलग-करेगा	परदा	तुम्हारे-लिए	बीच	पवित्र	और-बीच	पवित्र	परम-पवित्र		
	<a href="#">H5715</a>	<a href="#">H0914</a>	<a href="#">H6532</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>		

खूंटियों पर पर्दे को लटकाने के बाद, साक्षीपत्र के सन्दूक को पर्दे के पीछे रखो। यह पर्दा पवित्र स्थान को सर्वाधिक पवित्र स्थान से अलग करेगा।

וְנִתְּנָה	אֶת־	הַכַּפְּרֶת	עַל־	אֲרוֹן	הַעֲדוֹת	בְּקִדְשׁ	הַקְּדָשִׁים:	34
और-रखो	को-	प्रायश्चित्त-ढक्कन	पर	संदूक	साक्षी-के	पवित्र-में	परम-पवित्र	
<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3727</a>		<a href="#">H0727</a>	<a href="#">H5715</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	

सर्वाधिक पवित्र स्थान में साक्षीपत्र के सन्दूक पर ढक्कन रखो।

35 וְשֵׁמֶךָ אֶת-הַשְּׁלֶחֶן מִחוּץ לַפֶּתַח וְאֶת-הַמְנֹרָה נֹכַח הַשְּׁלֶחֶן עַל-פְּנֵי הַשְּׁלֶחֶן  
 और-रखो को-को-परदे-के बाहर मेज़ मेज़ पर पक्ष  
[H6763](#) [H7979](#) [H5227](#) [H4501](#) [H0853](#) [H6532](#) [H2351](#) [H7979](#) [H0853](#)

הַמִּשְׁכָּן תִּימְנָה וְהַשְּׁלֶחֶן תַּחֲתָיו עַל-פְּנֵי הַשְּׁלֶחֶן זָפוּן:  
 निवास-के दक्षिण-की-ओर और-मेज़ रखो पर-पक्ष उत्तर  
[H4908](#) [H8486](#) [H7979](#) [H5414](#) [H6763](#) [H6828](#)

“पवित्र स्थान में पर्दे के दूसरी ओर विशेष मेज़ को रखो। मेज़ तम्बू के उत्तर में होनी चाहिए। तब दीपाधार को तम्बू के दक्षिण में रखो। दीपाधार मेज़ के ठीक सामने होगा।

36 וְעֲשִׂיתָ מִסְדָּה לְפֶתַח הָאֹהֶל תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מְשֻׂרָר  
 और-बनाओ परदा प्रवेश-के-लिए तंबू-के नीला और-बैंगनी और-कीड़ा लाल और-बारीक-कपड़ा और-ढाली  
[H4539](#) [H6607](#) [H0168](#) [H8504](#) [H0713](#) [H8144](#) [H7806](#)

מַעֲשֵׂה רֶקֶם:  
 काम कढ़ाई-कार-का  
[H4639](#) [H7551](#)

“तब तम्बू के मुख्य द्वार के लिए एक पर्दा बनाओ। इस पर्दे को बनाने के लिए नीले बैंगनी, लाल कपड़े तथा सन के उत्तम रेशों का उपयोग करो और कपड़े में चित्रों की कढ़ाई करो।

37 וְעֲשִׂיתָ לְמִסְדָּה לְפֶתַח הַמִּשְׁכָּה עֲמוּדָיו שְׁשִׁים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב וְזָהָב וְוִיקָהּ  
 और-बनाओ परदे-के-लिए पाँच खम्भे कीकर-के और-मढ़ो उन्हें सोने-से उनके-हुक सोना और-ढाली  
[H4539](#) [H2568](#) [H5982](#) [H7848](#) [H6823](#) [H0853](#) [H2091](#) [H2053](#) [H2091](#) [H3332](#)

לְהֵם לְמַעֲשֵׂה אֲרָגִי נְחֹשֶׁת:  
 उनके-लिए पाँच कुर्सियाँ काँसे-की स  
[H0134](#) [H2568](#)

द्वार के इस पर्दे के लिए सोने के छल्ले बनावाओ। सोने से मढ़े बबूल की लकड़ी के पाँच खम्भे बनाओ और पाँचों खम्भों के लिए काँसे के पाँच आधार बनाओ।”